



Entod Pharmaceuticals
Ocular Care & Wellness Since 1977

National
MYOPIA
Week

निकट दृष्टि दोष और उसके नियंत्रण के बारे में जाने



निकट दृष्टि दोष क्या है।



- निकट दृष्टि दोष एक प्रकार का दृष्टिदोष है जिसमें दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है और निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है।

निकट दृष्टि दोष के प्रकार

⇒ गंभीरता के आधार पे



सामान्य निकट दृष्टि दोष
(-0.25 D to -3.00 D)



मध्यम निकट दृष्टि दोष
(-3.25 D to -6.00 D)



उच्च निकट दृष्टि दोष
(Greater than -6.00 D)

निकट दृष्टि दोष को Diopter (D), मे मापा जाता है (यह एक प्रकार का मानक इकाई है) इसी इकाई का उपयोग हम आँखों का नम्बर जाचें, चश्मे और लेंस के लिए भी उपयोग करते हैं।

⇒ According to progression (प्रगति के आधार पे)

अ) सामान्य निकट दृष्टि दोष :-

आँखों का नम्बर कुछ समय के लिए स्थगित रहता है।

ब) अस्थगित निकट दृष्टि दोष :-

इस दृष्टि दोष मे आँखों का नम्बर धीरे-धीरे बढ़ता है। अगर किसी को बचपन मे निकट दृष्टि दोष पाया जाता है, तो यह सामान्य रूप से उम्र के साथ बढ़ता है, जैसे: -1.5 D to -1.75 D और to -2.0 D

बच्चों मे निकट दृष्टि दोष क्यों होता है।



अनुवांशिक :-

निकट दृष्टि दोष मे अनुवांशिकता एक मुख्य कारण होता है, अगर माता-पिता निकट दृष्टि दोष से ग्रसीत हो तो बच्चे मे भी निकट दृष्टि दोष होने की संभावना होती है।



अंतकक्ष गतिविधि :-

जो बच्चे ज्यादा समय निकट की गतिविधि मे व्यतिर करते हैं उन बच्चों को निकट दृष्टि दोष होने की संभावना ज्यादा होती है (जैसे- पढ़ना, नजदीक बैठ कर टि.वी. देखना, मोबाईल चलाना, मोबाईल पर गेम खेलना इत्यादि।

लक्षण और संकेत



दूर की चीज धुंधली दिखाई देना



आँखों मे तनाव / देखने मे तकलीफ होना



स्परदर्द



National
MYOPIA
Week



निकट दृष्टि दोष का निदान




आँखों की जांच के बाद यह पता लगता है की बच्चे में दृष्टि दोष है, या नहीं ! इसके लिए डॉक्टर एक सामान्य दूरी पर लिखे कुछ अक्षर को पढ़ने के लिए कहता है। अगर बच्चे को सामान्य आँखों से यह पढ़ने में तकलीफ होती है तो बच्चा निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होता है जिसके निदान लिए वह चश्मा /लेंस उपयोग करने की सलाह देता है।

निकट दृष्टि दोष को बढ़ने से रोकना क्यों आवश्यक है ।

कुछ बच्चों में निकट दृष्टि दोष उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है, सामान्य निकट दृष्टि दोष में भविष्य में आँखों को क्षति का खतरा कम होता है। जबकी मध्यम और उच्च श्रेणी के निकट दृष्टि दोष में क्षति का खतरा ज्यादा होता है।



मोतियाबिंद: उच्च श्रेणी के निकट दृष्टि दोष में मोतियाबिंद समय से पहले होने की संभावना ज्यादा होती है।



कॉचिंबिंदु: निकट दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चों में कॉचिंबिंदु की संभावना दो से तीन गुना ज्यादा होती है।



Retinal detachment. निकट दृष्टि दोष में Retinal Detachment होनी की संभावना 40% तक बढ़ जाती है।



Refractive surgery. उच्च श्रेणी के निकट दृष्टि दोष से ग्रसित कुछ व्यक्ति Refractive Surgery के अनुकूल नहीं होते हैं।



Cost Factor: निकट दृष्टि दोष लगातार बढ़ना, आँखों की नियमित जाँच और चश्मे के बदलाव के कारण माता-पिता को एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है।

निकट दृष्टि दोष प्रगति को कम करने का उपचार

- Low-Dose **ATROPINE** eye drops
- Under-corrected spectacles
- Bifocal or Progressive lenses
- Orthokeratology

⇒ **Low-Dose ATROPINE eye drops** का उपयोग निकट दृष्टि दोष की बढ़ने से रोकने के लिए सबते असरदार, सुरक्षित और आसान तरीका है। अधिक जानकारी के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ से समर्पक करें !

निकट दृष्टि दोष प्रगति को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं ?



अपने बच्चों की आँखों की जाँच ६ माह की उम्र के बाद प्रति २ वर्ष पर नियमित रूपसे कराये !



अपने बच्चों को घर के बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें !



स्मार्टफोन, मोबाइल, टी.वी. के ज्यादा इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए !



स्वस्थ एंव पोषक तत्व से भरपूर आहार ले !



दृष्टि सुधारके आँखों की ड्रॉप्स के लंबे उपचार की योग्यता के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से समर्पक करें !



National
MYOPIA
Week

